



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2014/फाल्गुन 9, 1935
No. 515] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014/PHALGUNA 9, 1935

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 604(अ).—केन्द्रीय सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 15 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की का.आ. 2231(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अतिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का पुनर्गठन करती है, सदस्यों के नाम के समक्ष दर्शाई गई नियुक्ति की अवधि के साथ, एक अध्यक्ष और पचास अन्य सदस्यों को मिलाकर बनेगा जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिकतम तीन वर्षों की अवधि की नियत कालावधि के लिए नियुक्त होंगे अर्थात्:—

| क्र. सं. | नाम या पदनाम | अध्यक्ष या सदस्य | नियुक्ति की अवधि |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1 | भारसाधक मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। | अध्यक्ष | पदेन |
| 2 | अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई | सदस्य | पदेन |
| 3 | श्री इंद्रेश विक्रम सिंह, आंचलिक सदस्य (मध्य क्षेत्र), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई | सदस्य | छह मास |
| 4 | प्रो. एल आर वर्मा, विशेषज्ञ सदस्य (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (प.), मुंबई। | सदस्य | छह मास |
| 5 | सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 6 | सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय या उनका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव, भारत सरकार से नीचे की पंक्ति का न हो, कृषि भवन नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |

| | | | |
|----|--|-------|---|
| 7 | सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार या उनका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव, से नीचे की पंक्ति का न हो, अनुसंधान भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 8 | सचिव, वित्तीय सेवाएं, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या उनका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 9 | विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 10 | सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्यम), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 11 | हथकरघा विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 12 | हस्तशिल्प विकास आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिमी ब्लॉक-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 13 | कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद। | सदस्य | पदेन |
| 14 | महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 15 | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), 10/10, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ। | सदस्य | पदेन |
| 16 | प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या उनका नामनिर्देशिती, जो कार्यकारी निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, स्टीलिंग सेंटर, प्रथम मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वरली, मुम्बई। | सदस्य | पदेन |
| 17 | अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक या उनका नामनिर्देशिती, जो उप प्रबंध निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मैडम कामा रोड, मुम्बई। | सदस्य | पदेन |
| 18 | महानिदेशक, पब्लिक एक्शन और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद, इंडिया हेबिटेड सेंटर, जोन-5 (कोर-सी), द्वितीय मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 19 | भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, हिमाचल प्रदेश सरकार (उत्तरी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 20 | भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, सिक्किम सरकार (उत्तर पूर्वी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 21 | भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, छत्तीसगढ़ सरकार (मध्य अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 22 | भार साधक-सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, झारखंड सरकार (पूर्वी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 23 | भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, गोवा सरकार (पश्चिमी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 24 | भार साधक - सचिव, खादी और ग्रामोद्योग, केरल सरकार (दक्षिणी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 25 | अध्यक्ष, चंडीगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (उत्तरी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 26 | अध्यक्ष, मणिपुर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, मणिपुर सरकार (उत्तर पूर्व अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 27 | अध्यक्ष, उत्तराखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (मध्य अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 28 | अध्यक्ष, ओड़िशा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (पूर्वी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 29 | अध्यक्ष, गोवा-दमन और दीव खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (पश्चिमी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 30 | अध्यक्ष, कर्नाटक खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (दक्षिणी अंचल)। | सदस्य | एक वर्ष |
| 31 | श्री कीर्ति आजाद, संसद सदस्य (लोक सभा)। | सदस्य | 15वीं लोक सभा के कार्यालय की समाप्ति तक |
| 32 | श्री दत्ता मेघे, संसद सदस्य (लोक सभा)। | सदस्य | 15वीं लोक सभा के कार्यालय की समाप्ति तक |
| 33 | संसद सदस्य (राज्य सभा)। | सदस्य | नामनिर्दिष्ट किया जाना है |
| 34 | श्री एस.एस. प्रकाशम, रु 6, 4वां, “ए” मेन रोड, अत्तुर एस्कॉर्ट्स लेआउट, येलहंका, बेंगलुरु-560054 कर्नाटक। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 35 | श्री दयाल सिंह, म.सं. 1692, अर्बन एस्टेट, करनाल-132001, हरियाणा। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 36 | श्री नागराज गांधी, सचिव, श्री नंदी खादी ग्रामोद्योग संघ, 40/5, पतंकर लेआउट, 13वां क्रोस, 6वां मेन मल्लेश्वरम, बेंगलुरु-560003, कर्नाटक। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 37 | श्रीमती बदिथा पद्मा (सैलजा), डॉ. सं.32-35-37/1, जमींदार स्ट्रीट, मचवारम, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 38 | अलग से अधिसूचित किया जाएगा। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 39 | अलग से अधिसूचित किया जाएगा। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 40 | श्री एस.एम. सुलतान, निदेशक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, निवासी-बी 2(21), काशी राज अपार्टमेंट पटेल नगर कैंट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश | सदस्य | तीन वर्ष |
| 41 | चौ. यशपाल सिंह, निदेशक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ, निवासी-1/8, रक्षा पुरम, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। | सदस्य | तीन वर्ष |

| | | | |
|----|--|------------|----------|
| 42 | श्री प्रफुल पटेल, रु 501, निकुंज सीएचएसएल मेन, श्री कृष्णा नगर, बोरिवली, पूर्वी मुम्बई-400066 महाराष्ट्र (पश्चिमी अंचल)। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 43 | डॉ. जे. अलेक्जेंडर, आई ए एस (सेवानिवृत्त), 507, सीएमएच रोड, इंदिरा नगर, बेंगलुरु-560038, कर्नाटक (दक्षिण अंचल)। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 44 | अलग से अधिसूचित किया जाएगा। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 45 | अलग से अधिसूचित किया जाएगा। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 46 | अलग से अधिसूचित किया जाएगा। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 47 | अलग से अधिसूचित किया जाएगा। | सदस्य | तीन वर्ष |
| 48 | अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 49 | संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। | सदस्य | पदेन |
| 50 | वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई। | सदस्य | पदेन |
| 51 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई। | सदस्य-सचिव | पदेन |

2. दिनांक 10 सितंबर, 2010 की का.आ. 2231 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन उपर्युक्त प्रतिस्थापनों को छोड़कर यथावत बना रहेगा।

3. बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही किसी भी सदस्य की पदावधि की समाप्ति और उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति की तारीख के मध्य की अवधि के दौरान उसके सदस्यों के किसी रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

[फ़ा. सं. 6(6)/2013-केवीआई-II]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 604(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rule 15 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. 2231 (E), dated the 10th September, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitute the National Khadi and Village Industries Board consisting of a Chairman and fifty other members, with term of appointment shown against the names of members, who shall hold appointment for a fixed term subject to a maximum period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:—

| Sr. No. | Name/Designation | Chairman/ Member | Term Appointment of |
|---------|--|---------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Minister-in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi. | Chairman | Ex-officio |
| 2 | Chairperson, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai. | Member | Ex-officio |
| 3 | Shri Indresh Vikram Singh, Zonal Member (Central Zone), Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai. | Member | Six months |
| 4 | Prof. L. R. Verma, Expert member (S&T), Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai. | Member | Six months |
| 5 | Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 6 | Secretary, Ministry of Rural Development or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Government of India, Krishi Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |

| | | | |
|----|--|--------|------------|
| 7 | Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Government of India or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Anusandhan Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 8 | Secretary, Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, or his nominee not below the rank of Joint Secretary, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 9 | Development Commissioner for Micro, Small and Medium Enterprises, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 10 | Adviser (Village and Small Enterprises), Planning Commission, Yojana Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 11 | Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 12 | Development Commissioner for Handicrafts, Ministry of Textiles, Government of India, West Block 7, R.K. Puram, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 13 | Executive Director, National Institute of Design, Ahmedabad. | Member | Ex-officio |
| 14 | Director General, National Institute of Fashion Technology, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 15 | Chairman and Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), 10/10, Madan Mohan Malviya Marg, Lucknow. | Member | Ex-officio |
| 16 | Managing Director, National Bank of Agriculture and Rural Development or his nominee not below the rank of Executive Director, Sterling Center, 1st Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai. | Member | Ex-officio |
| 17 | Chairman, State Bank of India or his nominee not below the rank of a Deputy Managing Director, New Administrative building, Madam Cama Road, Mumbai. | Member | Ex-officio |
| 18 | Director General, Council for Advancement of Peoples' action and Rural Technology, India Habitat Centre, Zone-5, (Core-C), 2 nd Floor, Lodhi Road, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 19 | Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Himachal Pradesh (Northern Zone). | Member | One year |
| 20 | Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Sikkim (North-Eastern Zone). | Member | One year |
| 21 | Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Chhatisgarh (Central Zone). | Member | One year |
| 22 | Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Jharkhand (Eastern Zone). | Member | One year |
| 23 | Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Goa (Western Zone). | Member | One year |
| 24 | Secretary-in-Charge of Khadi and Village Industries, Government of Kerala (Southern Zone). | Member | One year |
| 25 | Chairperson, Chandigarh Khadi and Village Industries Board (Northern Zone). | Member | One year |
| 26 | Chairperson, Manipur Khadi and Village Industries Board, Government of Manipur (North-Eastern Zone). | Member | One year |
| 27 | Chairperson, Uttarakhand Khadi and Village Industries Board, (Central Zone). | Member | One year |
| 28 | Chairperson, Odisha Khadi and Village Industries Board, (Eastern Zone). | Member | One year |
| 29 | Chairperson, Goa-Daman and Diu Khadi and Village Industries Board, (Western Zone). | Member | One year |
| 30 | Chairperson, Karnataka Khadi and Village Industries Board, (Southern Zone). | Member | One year |

| | | | |
|----|---|------------------|---|
| 31 | Shri Kirti Azad, Member of Parliament (Lok Sabha). | Member | Till the expiry of the term of 15 th Lok Sabha |
| 32 | Shri Datta Meghe, Member of Parliament (Lok Sabha). | Member | Till the expiry of the term of 15 th Lok Sabha |
| 33 | Member of Parliament (Rajya Sabha). | Member | To be nominated |
| 34 | Shri S. S. Parkasam, # 6, 4 th "A" Main Road, Attur, Escorts Layout, Yelahanka, Bangalore – 560054, Karnataka. | Member | Three years |
| 35 | Shri Dayal Singh, H. No. 1692, Urban Estate, Karnal - 132001, Haryana. | Member | Three years |
| 36 | Shri Nagaraj Ganddhi, Secretary, Sri Nandi Khadi Gramodyoga Sangha, 40/5, Patankar Layout, 13 th Cross, 6 th Main Malleshwaram, Bengaluru- 560003, Karnataka. | Member | Three years |
| 37 | Smt. Baditha Padma (Sailaja), Dr. No. 32-35-37/1, Jamindar Street, Machavaram, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh. | Member | Three years |
| 38 | To be notified separately. | Member | Three years |
| 39 | To be notified separately. | Member | Three years |
| 40 | Shri S. M. Sultan, Director, Purvanchal Gramin Bank, R/o B-2(21), Kashi Raj Apartment, Patel Nagar Cantt. Varanasi, Uttar Pradesh. | Member | Three years |
| 41 | Ch. Yashpal Singh, Director, Sarva UP Gramin Bank, Meerut, R/o, 1/8, Raksha Puram, Mawana Road, Meerut, UP. | Member | Three years |
| 42 | Shri Praful Patel, # 501, Nikunj CHSL Main, Sri Krishna Nagar, Borivali, East Mumbai – 400066 Maharashtra (Western zone). | Member | Three years |
| 43 | Dr. J. Alexander, IAS (Retd.), 507, CMH Road, Indira Nagar, Bangalore – 560038, Karnataka (Southern Zone). | Member | Three years |
| 44 | To be notified separately. | Member | Three years |
| 45 | To be notified separately. | Member | Three years |
| 46 | To be notified separately. | Member | Three years |
| 47 | To be notified separately. | Member | Three years |
| 48 | Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 49 | Joint Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhawan, New Delhi. | Member | Ex-officio |
| 50 | Financial Adviser, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai. | Member | Ex-officio |
| 51 | Chief Executive Officer, Khadi and Village Industries Commission, Gramodaya, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai. | Member-Secretary | Ex-officio |

2. The members other than ex-officio members shall hold office for the period indicated against their respective entry or till such date as may be notified by the Government, from time to time.

3. No act or proceeding of the Board shall be invalid by the reason only of the existence of any vacancy amongst its members during the period between expiry of tenure of any member and date of appointment of his successor.

[F. No. 6/(6)/2013-KVI-II]
B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.